



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 365]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 7, 2007/अग्रहायण 16, 1929

No. 365]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 7, 2007/AGRAHAYANA 16, 1929

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2007

‘8.30 प्रतिशत उर्वरक कंपनियों के भारत सरकार विशेष बांड, 2023’ का निर्गम ।

फा. सं. 4(8)-डब्ल्यू एंड एम/2007.—भारत सरकार एतद्द्वारा 7 दिसम्बर, 2007 को कुल 3890 करोड़ रुपये (नामिनल) की राशि के लिए ‘8.30 प्रतिशत उर्वरक कंपनियों के भारत सरकार विशेष बांड, 2023’ (जिन्हें इसके बाद संक्षिप्त रूप में ‘विशेष बांड’ के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) का निर्गम अधिसूचित करती है।

1. विशेष बांडों में अभिदान की पात्रता और अभिदान की सीमा.—यहां अनुबंध-I में यथाउल्लिखित कंपनियां ही विशेष बांडों में अभिदान की पात्र होंगी और विशेष बांडों में उनका अभिदान उक्त अनुबंध-I में उनके नाम के सामने दर्शाई गई राशि की सीमा तक सीमित होगा। उक्त अनुबंध में यथाउल्लिखित कंपनियों को छोड़कर कोई बैंक, कंपनी, निगम अथवा अन्य कोई निकाय सहित कोई अन्य व्यक्ति विशेष बांडों में अभिदान के लिए पात्र नहीं होगा।

2. मूल्य.—विशेष बांड पात्र कंपनियों द्वारा किए गए आवेदन के अनुसार राशि के लिए सममूल्य पर किए गए आवेदन पर जारी किए जाएंगे। विशेष बांड न्यूनतम 10,000 रुपये (नामिनल) की राशि और उसके बाद 10,000 रुपये के गुणजों में जारी किए जाएंगे।

3. आवेदन पत्र.—विशेष बांड पात्र कंपनियों से अनुबंध-II में दिए गए प्रपत्र के अनुसार आवेदन पर जारी किए जाएंगे।

4. प्रतिभूति का स्वरूप.—विशेष बांड स्टॉक के रूप में अर्थात् ‘स्टॉक प्रमाण पत्रों’ सहायक सामान्य खाता बही धारक के साथ धारित ग्राहक सहायक सामान्य खाता लेखा में क्रेडिट द्वारा जारी किए जाएंगे।

5. कार्यकाल का प्रारम्भ और वापसी अदायगी की तारीख.—विशेष बांडों का कार्यकाल 7 दिसम्बर, 2007 से शुरू होगा। विशेष बांडों पर ब्याज उनकी अवधि प्रारम्भ होने की तारीख से उपचित होगा। विशेष बांडों की वापसी अदायगी सममूल्य पर 7 दिसम्बर, 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई के लोक ऋण कार्यालय में की जाएगी।

6. ब्याज.—विशेष बांडों पर 8.30 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज प्राप्त होगा। ब्याज का हिसाब विशेष बांडों की अवधि प्रारम्भ होने की तारीख से लगाया जाएगा और यह भुगतान विशेष बांडों की परिपक्वता तक अर्द्धवार्षिक आधार पर 7 जून और 7 दिसम्बर को देय होगा।

विशेष बांडों पर ब्याज का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक के फोर्ट, मुम्बई के लोक ऋण कार्यालय में किया जाएगा। ब्याज का भुगतान ब्याज की राशि को निकटतम रूप तक पूर्णांकित करने के बाद किया जाएगा।

7. हस्तांतरणीयता.—(1) इस अधिसूचना के पैरा 4 के प्रावधानों के अधीन भारतीय प्रतिभूति अधिनियम, 2006 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के उपबंधों के

अंतर्गत विशेष बांड का नवीकरण, उप-विभाजन, समेकन, रूपान्तरण अथवा अंतरण किया जा सकता है।

(ii) इस अधिसूचना में ऊपर पैरा 1 में दिए गए कथन के बावजूद, अभिदानकर्ताओं द्वारा विशेष बांडों को बैंकों, निगम अथवा किसी अन्य निकाय सहित किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में अंतरण करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और ऐसी प्रतिभूति का अन्तरिती भी उन्हें उसी तरीके से धारण तथा अंतरण करने का पात्र होगा।

8. सांविधिक प्रावधान.—ऐसे किसी भी मामले के संबंध में जिसकी व्यवस्था इस अधिसूचना के तहत नहीं की गई है, विशेष बांड भारतीय प्रतिभूति अधिनियम, 2006 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के उपबंधों के अंतर्गत नियंत्रित किए जाएंगे।

9. कर कानून की प्रयोज्यता.—विशेष बांडों में निवेश का मूल्य और उस पर देय ब्याज समय-समय पर लागू कर कानूनों के उपबंधों द्वारा शासित किए जाएंगे।

10. बांडों की पात्रता.—बैंकों द्वारा विशेष बांडों में निवेश को बैंकों और बीमा कंपनियों द्वारा उनकी सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों में पात्र निवेश नहीं माना जाएगा। लेकिन, बीमा कंपनियों द्वारा ऐसे निवेश को बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के तहत यथा परिभाषित "अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ" की श्रेणी के तहत निवेश माना जाएगा। इसके अलावा, भविष्य निधियों, उपादान निधियों, अधिवर्षिता निधियों आदि द्वारा विशेष बांडों में निवेश को वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक आदेश के अधीन पात्र निवेश के रूप में माना जाएगा।

11. रिपो के लिए पात्रता.—विशेष बांड हस्तान्तरणीय होंगे और बाजार के तत्काल वायदा लेन-देन (रिपो) के लिए पात्र होंगे। लेकिन, इन बांडों को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ तत्काल वायदा लेन-देन (रिपो/रिवर्स रिपो) के लिए पात्र आधारित प्रतिभूति नहीं माना जाएगा।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से

एल. एम. बास, संयुक्त सचिव

पात्र कंपनियों की सूची तथा '8.30 प्रतिशत उर्वरक कंपनियों के भारत सरकार विशेष बांड, 2023' का आवंटन

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	कंपनी का नाम	राशि
(1)	(2)	(3)
1.	चम्बल उर्वरक एवं रसायन लि.	95.00
2.	गुजरात नर्मदा घाटी उर्वरक कंपनी लि.	73.00
3.	गुजरात राज्य उर्वरक एवं रसायन लि.	217.00
4.	भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी समिति लि.	1031.00
5.	भारत खाड़ी उर्वरक (आदित्य बिड़ला नूवो लि.)	15.00
6.	कृषक भारतीय सहकारी समिति लि.	10.00

(1)	(2)	(3)
7.	मंगलौर रसायन एवं उर्वरक लि.	118.00
8.	नागार्जुन रसायन एवं उर्वरक लि.	45.00
9.	राष्ट्रीय उर्वरक लि.	150.00
10.	कृष्णको श्याम उर्वरक लि.	25.00
11.	राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लि.	177.00
12.	श्रीराम उर्वरक एवं रसायन	40.00
13.	टाटा रसायन लि.	182.00
14.	जुअरी उद्योग लि.	241.00
15.	कोरोमंडल उर्वरक लि.	211.00
16.	दीपक उर्वरक एवं मेट्रो रसायन निगम लि.	4.00
17.	गोदावरी उर्वरक एवं रसायन लि.	195.00
18.	हिंडाल्को उद्योग लि. (यूनिट: बिड़ला कॉपर)	22.00
19.	भारतीय पोटाश लि.	706.00
20.	भोजेक इंडिया प्रा.लि.	76.00
21.	पारादीप फास्फेट लि.	219.00
22.	दक्षिणी पेट्रो-रसायन उद्योग लि.	38.00
जोड़		3890.00

अनुबंध-II

स्थान :

तिथि :

क्षेत्रीय निदेशक
लोक ऋण कार्यालय,
भारतीय रिजर्व बैंक,
मुम्बई-400 001

विषय : '8.30 प्रतिशत उर्वरक कंपनियों के भारत सरकार विशेष बांड, 2023'।

महोदय,

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना एफ. संख्या 4(8)डब्ल्यूएंडएम/2007, दिनांक 7 दिसम्बर, 2007 की शर्तों के अंतर्गत हम.....करोड़ रुपये की समग्र राशि के शीर्षकांकित बांडों में अभिदान करने के पात्र हैं।

हमें विशेष बांडों को शासित करने वाली शर्तें स्वीकार्य हैं और हम आपसे हमारे पक्ष में बांडों को जारी करने का अनुरोध करते हैं।

भवदीय,

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

कार्यालय मुहर/स्टाम्प

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(Budget Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2007

Issue of '8.30 per cent Fertilizer Companies' Government of India Special Bonds, 2023'

F. No. 4(8)-W&M/2007.—Government of India hereby notifies the issue of '8.30 per cent Fertilizer Companies Government of India Special Bonds, 2023', (hereinafter briefly described as "Special Bonds") for an aggregate amount of Rs. 3,890 crore (nominal) on December 7, 2007.

1. Eligibility for making subscription to the Special Bonds and limits of subscription.—The companies as referred to in the Annex I hereto shall be eligible to subscribe to the Special Bonds and their subscription to the Special Bonds shall be limited to the extent of the amount, as shown against their respective names in the said Annex I. No other person including any bank, company, corporation or any other body, except the companies as referred to in the aforesaid Annex, shall be eligible to subscribe to the Special Bonds.

2. Price.—The Special Bonds shall be issued on application at par for the amounts as per the application made by the eligible companies. The Special Bonds will be issued for a minimum amount of Rs. 10,000 (Nominal) and in multiples of Rs. 10,000 thereafter.

3. Application.—The Special Bonds shall be issued on application as per proforma in Annex II, from the eligible companies.

4. Form of Security.—The Special Bonds will be issued in the form of stock, i.e. 'Stock Certificates' or by credit to Constituent Subsidiary General Ledger Account maintained with Subsidiary General Ledger Account holder.

5. Commencement of tenure and date of repayment.—The tenure of Special Bonds will commence from December 7, 2007. Interest on the Special Bonds will accrue from the date of commencement of tenure. The Special Bonds will be repaid at par on December 7, 2023 at Public Debt Office, Reserve Bank of India, Mumbai.

6. Interest.—The Special Bonds will bear interest at the rate of 8.30 per cent per annum. Interest will be reckoned from the date of commencement of tenure of the Special Bonds and will be payable half yearly on June 7 and December 7 till maturity of the Special Bonds.

Interest on the Special Bonds will be payable at Public Debt Office, Reserve Bank of India, Fort, Mumbai. Interest will be paid after rounding off the amount of interest to the nearest rupee.

7. Transferability.—(i) Subject to the provisions of paragraph 4 of the notification, the Special Bonds can be renewed, sub-divided, consolidated, converted and transferred by the holder in accordance with the provisions of

the Government Securities Act, 2006 and Government Securities Regulations, 2007 framed thereunder.

(ii) Notwithstanding what is stated in paragraph 1 hereinabove, there will be no restriction on the transfer of the Special Bonds by the subscribers in favour of any other person including banks, corporation or any other body and the transferee of such security would also be entitled to hold and transfer the same in such manner.

8. Statutory Provisions.—With respect to any such matter which has not been provided under this Notification, the Special Bonds shall be governed by the Government Securities Act, 2006 and Government Securities Regulations, 2007 framed thereunder.

9. Applicability of Tax Law.—The value of the investment in the Special Bonds and the interest payable thereon will be governed by the provisions of tax laws as applicable from time to time.

10. Eligibility of Bonds.—Investment in the Special Bonds by the banks will not be reckoned as an eligible investment in Government securities by banks and insurance companies for their statutory requirements. However, such investment by the insurance companies will be eligible to be reckoned as investment under "other Approved Securities" category as defined under Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000. Further, the investment by the Provident Funds, Gratuity Funds, Superannuation Funds, etc. in the Special Bonds will be treated as an eligible investment under the administrative order of the Ministry of Finance.

11. Eligibility for Repo.—The Special Bonds will be transferable and eligible for market ready forward transactions (Repo). The bonds, however, will not be an eligible underlying security for ready forward transactions (Repo/ reverse Repo) with the Reserve Bank of India.

By Order of the President of India

L. M. VAS, Jt. Secy.

Annexure-I

List of eligible Companies and allocation of '8.30 per cent Fertilizer Companies Government of India Special Bonds, 2023'.

(Rs. in crore)

Sl. No.	Name of the Company	Amount
(1)	(2)	(3)
1	Chambal Fertilisers & Chemicals Limited	95.00
2	Gujarat Narmada Valley Fertilizers Company Limited	73.00
3	Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited	217.00
4	Indian Farmers Fertilizer Co-operative Limited	1031.00
5	Indo Gulf Fertilizers (A unit of Aditya Birla Nuvo Ltd.)	15.00
6	Krishak Bharti Co-operative Limited	10.00
7	Mangalore Chemicals & Fertilizers Limited	118.00
8	Nagarjuna Fertilizers & Chemicals Limited	45.00

(1)	(2)	(3)	ANNEX II
9	National Fertilizers Limited	150.00	Place:
10	Kribhco Shyam Fertilizers Limited	25.00	Date:
11	Rashtriya Chemicals & Fertilizers Limited	177.00	The Regional Director,
12	Shriram Fertilisers & Chemicals.	40.00	Public Debt Office,
13	TATA Chemicals Limited	182.00	Reserve Bank of India,
14	Zuari Industries Limited	241.00	Mumbai-400 001
15	Coromandel Fertilizers Limited	211.00	Subject: '8.30 per cent Fertilizer Companies'
16	Deepak Fertilizers & Petrochemicals Corporation Limited	4.00	Government of India Special Bonds, 2023'.
17	Godavari Fertilisers & Chemicals Limited	195.00	Sir,
18	HINDALCO Industries Limited (Unit: Birla Copper)	22.00	In terms of Government of India, Ministry of Finance, Notification F.No. 4 (8) W &M/2007 dated December 7, 2007, we are eligible to subscribe to the captioned Bonds for an aggregate amount of Rs.crore.
19	Indian Potash Limited	706.00	We accept the terms and conditions governing the Special Bonds and request you to issue the bonds in our favour.
20	Mosaic India Private Limited	76.00	
21	Paradeep Phosphates Limited	219.00	Yours faithfully,
22	Southern Petrochemical Industries Corporation Limited	38.00	Signature:
			Name:
			Designation:
			Office Seal/Stamp
	Total	3890.00	